

**Date: - 7th March, 2024** 

Listing Department/ Department of Corporate Relations, The Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai, Fax- 022-22722037/39/41/61/3121/22723719 Scrip Code: 532524

Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai- 51, Fax- 022-26598237/38- 022-26598347/48
Company Code: PTC

Dear Sir/ Madam,

Sub.: Newspaper advertisement for Extraordinary General Meeting of the Members of the Company ("EGM").

With reference to above cited subject, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published on March 6, 2024 in the newspapers viz. Business Standard Delhi (in English) and Business Standard Delhi (in Hindi) informing about 8<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting scheduled on Thursday, 28th day of March, 2024 along with details of Cut Off Date, Video Conferencing ("VC") facility to the Members of the Company and related matters thereto.

We request you to kindly take the same on your record.

Thanking You,

For PTC India Limited

(Rajiv Maheshwari) Company Secretary

FCS-4998

#### **Enclosures:**

- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in English)
- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in Hindi)



## **GDP VAGARIES IN ELECTION YEARS**

There are valid explanations for the variations, But, in an election year, questions will be raised whether non-economic factors are at play

### A K BHATTACHARYA

ndia's gross domestic product (GDP) numbers, released last week, surprised most analysts.

The economy grew at 8.4 per cent in the third quarter (October-December) - a six-quarter high — and the second advance estimate (SAE) for 2023-24 placed GDP growth at 7.6 per cent, up sharply from the first advance estimate (FAE) of 7.3 per cent.

The primary reason for the increase in the SAE for 2023-24 was a downward revision in the GDP growth for 2022-23, from 7.2 per cent to 7 per cent. The spurt in net indirect tax collections, too, must have boosted not just the October-December quarter growth but also the annual growth number.

The surprise in the 2023-24 growth numbers, however, may not end here. Remember that this is an election year. General elections to the 18th Lok Sabha will be held in April and May.

Though a rising growth curve before the general elections will indeed help bolster the ruling party's image of having steered the economy well, the key question is whether that growth curve will be maintained in subsequent revisions of the GDP number after the general elections are over.

For an answer, watch out for the provisional estimate of growth for 2023-24, to be released on May 31. Meanwhile, a study of how GDP data revisions took place in 2019, when the last general elections were held, could be instructive.

### The puzzle of FY19

On January 7, 2019, the National Statistical Office (NSO) released the FAE of India's GDP for 2018-19, which placed the growth in real terms at 7.2 per cent. This data was released about

three-four months before the general elections were due to be held.

What did the SAE of India's GDP growth for 2018-19 say? The SAE. released about two months later, on February 28, 2019, reduced the growth number to 7 per cent. The scaling down was largely due to an upward revision for the 2017-18 GDP growth number from 6.7 per cent to 7.2 per cent.

The base effect was at work. The previous year's growth number had gone up and hence the growth for 2018-19 had to be revised down.

But what happened to the next few iterations of the 2018-19 growth numbers is puzzling.

The general elections in 2019 were held between April 11 and May 19. The first GDP print for 2018-19, released after the general elections, was called Provisional Estimate, or PE. And the PE for GDP growth in 2018-19 was revised

Not only that, in the subsequent three iterations, ending with the final estimate called the Third Revised Estimate, the GDP growth in 2018-19

There was no higher base effect at work, either. On the contrary, the GDP numbers for 2017-18 were being revised downwards. From the first print of 7.2 per cent to the final estimate of 6.5 per cent, the journey of downward revisions, therefore, was stark.

### Down in FY09, up in FY14

was reduced to 6.5 per cent.

Even while estimating the GDP growth for 2008-09, also a general election year, a sharp variation was noticeable. In its advance estimate for 2008-09,

released on February 9, 2009, the growth in GDP at market prices was placed at 7.1 per cent. This data release took place before the general elections, which were held between April 16 and May 13 of 2009.

About a year later, the quick estimate, released on February 8, 2010, placed the growth rate for GDP at market prices at 5.1 per cent.

That decline could be attributed to the failure of the NSO in accurately estimating the likely impact of the global financial meltdown on the Indian economy's performance. But what cannot be ignored is that the first GDP print for 2008-09 came out weeks before the elections were to be held.

The GDP number for 2013-14, another general election year, saw no such downward revision in its different iterations. On the contrary, the growth number for GDP at market prices had to be revised upward after the general elections in April-

In February 2014, the advance estimate for 2013-14 growth in GDP at market prices was placed at 4.6 per cent, but the provisional numbers, released after the elections in May 2014, placed it at 5 per cent.

May 2014.

It could be argued that the sharp variations in GDP data have taken place not just during election years. Indeed, such instances have become more noticeable in recent years, after the base year was changed to 2011-22.

For instance, in 2016-17, the GDP number, according to the FAE, was 7.1

### GDP GROWTH VARIATIONS

(All figures in per cent)

018-19			
Jan 7,'19	1st Ad Est	7.2	
Feb 28,'19	2nd Ad Est	7.0	
May 31, '19	Provisional	6.8	
Jan 31,'20	1st RE	6.1	
Jan 29,'21	2nd RE	6.5	
*Feb 28,'23	3rd RE	6.5	

2019-20			
Jan 7,'20	1st Ad Est	5.0	
Feb 28,'20	2nd Ad Est	5.0	
May 29, '20	Provisional	4.2	
Jan 29,'21	1st RE	4.0	
Jan 31,'22	2nd RE	3.7	
Feb 28,'23	3rd RE	3.9	

2020-21			2
Jan 7, '21	1st Ad Est	-7.7	1.
Feb 26, '21	2nd Ad Est	-8.0	
May 31, '21	Provisional	-7.3	
Jan 31,'22	1st RE	-6.6	1
Feb 28,'23	2nd RE	-5.8	1
Feb 29,'24	3rd RE	-5.8	1
			_

2021-22			
Jan 7,'22	1st Ad Est	9.2	
Feb 28,'22	2nd Ad Est	8.9	
May 31, '22	Provisional	8.7	
Feb 28,'23	1st RE	9.1	
Feb 29,'24	2nd RE	9.7	
	3rd RE		

23			2023-24	
23	1st Ad Est	7.0	Jan 5,'24	1st Ad Est
,'23	2nd Ad Est	7.0	Feb 29,'24	2nd Ad Est
,'23	Provisional	7.2		Provisiona
,'24	1st RE	7.0		1st RE
	2nd RE			2nd RE
	3rd RE			3rd RE

Instead of February 28, 2022, this data was first available only a year later, on February 28, 2023
 Ad Est: Advanced Estimates; RE: Revised Estimates
 All estimates at 2011–12 prices;

per cent, but the Third Revised Estimate placed it at 8.3 per cent. The following year did not witness such a sharp variation. But the three years that

followed saw the sharpest The early iterations rely on variations. The difference numbers from the between the first estimate organised sector of growth and the final and it is only estimate was about a percentage point of GDP in in the later iterations that 2018-19. But the variation in the unorganised the growth numbers for 2019-20 was sharper, when sector data gets reflected it swung from 5 per cent, as measured by the FAE,

20

2022-

Jan 6,

Feb 28

May 31

Feb 29

final estimate, or the Third Revised Estimate.

Again, in 2020-21, the year of contraction in the wake of the Covid pandemic, the growth rates differed sharply: From an FAE of -7.7 per cent to the Third Revised Estimate of -5.8 per cent.

to 3.9 per cent in the

It would appear that the variations in crisis years are sharper.

Experts in national income data collection point out that variations take place because the early iterations rely mostly on numbers obtained from the organised sector and it is only in the later iterations that the unorganised sector data gets reflected in the GDP numbers. Thus, in a crisis year, the poorer performance of the unorganised sector becomes a bigger drag on the economy.

These are valid explanations. But when an election year also experiences such sharp variations in GDP numbers, questions will be raised over why those changes take place and whether noneconomic factors are at play.

Such speculation can be scotched only if the government fixes whatever remaining weaknesses that continue to plague the country's GDP data

### OPINION

### Deepening US-India ties through innovation, trade



ARUN VENKATARAMAN

s I begin my fourth visit to India in my role as the US Department of Commerce assistant secretary for global markets, I am enthusiastic about the prospects for building new trade relationships, advancing our mutual efforts to combat climate change, and deepening the ties between our countries' dynamic startup ecosystems,

Between March 4 and 11, 12 US businesses and organisations will be travelling to Delhi and Mumbai, with some companies also making a third stop in Chennai. These companies and organisations represent some of the most innovative in energy technology sectors, ranging from energy distribugrids to water and wastewater. recycling, and more.

Of particular interest to our mission is helping to advance trade and investment partner-India's five-point agenda for fighting climate change and its goals of fulfilling 50 per cent of its energy requirements through renewable technologies by 2030 and net-zero emissions by 2070. This effort not only aims to create more robust growth for future generations, but also targets the ecological transition required to combat climate change.

To this end, our delegation one-on-one meetings with potential Indian buyers and Department of Commerce's embassy and consulates in India. Mission participants will also meet with key Indian decito foster policies, regulations, and the environment.

commercial ties through resentatives, business associ- son relationships. ations and government Indian leaders on perspectives mate objectives, I am also on important issues.

This trade mission builds on US Secretary of Commerce Gina Raimondo's March 2023 trip to India to co-lead the US-India Commercial Dialogue strengthen the bilateral commercial and strategic relationship. It serves as another example of the Biden-Harris administration's whole-of-government approach to supporting Asia's clean energy transition through Clean EDGE Asia (Enhancing Development and Growth through Clean Energy), an initiative that sees the Department of Commerce partthe environmental and clean nering with the US Agency for International Development, the Departments of Energy and tion, transmission and smart State, and six other American government agencies.

India ranks among the top ship is an engine for global exceeding \$191 billion in 2022, nearly doubling from 2014. US products are highly competitive in the international marcompete in India. As we work to increase our commercial engagement and strengthen our alliance, our trade mission will expand business opportunities will engage in more than 230 for our mission participants, forward to deepening our colleading to win-win outcomes laboration. Our two countries for people and businesses in are open for business. partners, arranged by the US the US and India. New partnerships facilitated through this trade experts at the US mission would also be antici- commerce for global markets and pated to advance digital sol-

utions and innovation. In both the US and India, sion-makers at the state and small and medium-sized enternational levels to discuss how prises (SMEs) account for the International Trade vast majority of all businesses

and financial investments that and are the engine of their support the development of respective economies, Most of sustainable, secure, and clean the US companies on the energy markets, supporting the mission are considered SMEs protection of human health in the United States. For US mission participants and be working to advance our this trade mission offers the unique advantages of building meetings with key Indian rep- longstanding, person-to-per-

In addition to finding ways leaders. I will also be hearing that our nations can collabfrom top-level private sector orate on implementing cliembarking on this visit to deepen the connection between our two countries' dynamic startup ecosystems. further promote innovation. and address hurdles that could and supports ongoing efforts to hinder deeper US-India commercial cooperation in the technologies that will shape

economies of the future. Creating this connection between our startup ecosystems, our "Innovation Handshake" is key to our two countries being able to deliver on the work highlighted by President Biden and Prime Minister Modi during their June 2023 meetings in Washington, Most importantly, the "Innovation Handshake" is an opportunity to promote innovation and job growth, which will be mutually beneficial to both countries, as well 10 US trading partners, and our as our entrepreneurs, innova-

tors, and workers. As President Biden and growth, with bilateral trade Prime Minister Modi noted in their June 22, 2023, Joint Statement, "The US-India Comprehensive Global and Strategic Partnership is ketplace, making businesses on anchored in a new level of trust our mission well-positioned to and mutual understanding and enriched by the warm bonds of family and friendship that inextricably link our countries together."

I share that vision and look

The writer is assistant secretary of director general of the US and Foreign Commercial Service. Global markets is part of the US

### KOHINOOR PULP & PAPER PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN: U74999WB2008PTC126964 LIQUIDATOR -CVR Krishnaswami

(Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P01302/2018-19/12217)

Notice is given to the public in general that the following Asset Lot of KOHINOOR PULP & PAPER PRIVATE LIMITED (in Liquidation) ("Corporate Debtor") (in liquidation vide order of Hon'ble NCLT dated 01.07.2019) is proposed to be soldin accordance with clause (c) of regulation 32, sub-regulation (1) of regulation 33 and Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (I buildation Propose). Perculsions 2016 by proposed perform. The (Liquidation Process) Regulations, 2016 through e-auction platform. The interested applicants may refer to the detailed Sale Process Memorandum by writing to liquidation.kohinoorpulp@gmail.com with a copy to

Date and time of e-Auction March 27, 2024 from Last Date for Submission of Bid Documents Last Date for Submission of Earnest Money Deposit March 25, 2024 17.00		11:00 Hrs. IST			
		March 14, 2024 March 25, 2024 17.00 hrs			
Machinery purported to be Cooking plant and fibreline	4,00,00,000.00 [Rupees Four crores Only]		40,00,000.00 [Rupees Forty Lacs only]		

E-Auction will be held for sale of the Asset Lot of the Corporate Debtor or an "AS IS WHERE BASIS" "AS IS WHAT IS BASIS". "WHATEVER THERE IS BASIS" and "NO RECOURSE BASIS" without any representation, warran

This Notice shall be read in conjunction with the Sale Process Memorandum dated 6th March 2024 containing details of the Assets, online E-Auction Bid Form, Declaration and Underlaking Form, General Terms and Conditions of the E-Auction which are available on the site https://www.eauctions.co.in or send an e-mail to liquidation.kohinoorpulp@gmail.com rpcvrkswami@gmail.com
"Disclaimer:The Advertisement purports to ascertain the interest of Bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator.

The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process involved herein, without giving reason at any time, and in any respect. Any such amendment in the invitation including the aforementioned timelines, shall be notified

Date: 6th March 2024
Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P01302/2018-19/12217
Liquidator for KOHINOOR PULP & PAPER PRIVATE LIMITED Address: C/O Naresh nath Mookherjee shipping private Limited,12/1 Lindsay street Kolkata 700083 E-mail : liquidation.kohinoorpulp@gmail.com



Invitation for Bids (IFB) for Package: VH2B: Material Science Lab – 2B - EBSD and EDS System for SEM for Establishment of Research & Development (R&D) Centre at POWERGRID GIS Complex

Spec No.: CC/NT/W-MISC/DOM/A00/23/12398 Single Stage Two Envelope (SSTE) Bidding Procedure (Funding:

GLOBAL COMPETITIVE BIDDING Date: 06/03/2024 POWERGRID invites online bids through e-portal https:// etender.powergrid.in for the following Package:

Details/Site/Salient Particulars of Works	Downloading of Bidding Documents	Deadline for Bid Submission		
2000 (000000000000000000000000000000000	Cost of Bidding Documents	(Soft Copy & Hard Copy Part)		
VH2B: Material Science Lab- 2B-EBSD and EDS System for SEM for Establishment of Research & Development (R&D) Centre at POWERGRID GIS Complex, Manesar, Gurgaon.	Till 20/03/2024 upto 1100Hrs.	Soft Copy Part: 20/03/2024 upto		
	INR 12,500/- or USD 250/-	1100Hrs & Hard Copy Part: 22/03/2024 upto 1100Hrs		

- 1. For further details including addendum/changes in bidding program, if any, please visit procurement portal https://etender.powergrid.in
- 2. The First Envelope (Techno-Commercial part) of the bid shall be opened on the same day of the deadline for Bid Submission (Hard Copy part) i.e at 1130hrs onwards. 3. The complete Bidding Documents are also available on our website
- http://www.powergrid.in for the purpose of reference only. 4. The NIT/IFB has already been published on e-portal https:// etender.powergrid.in on 27/12/2023. 5. For any other information, please contact: 0124-282-2383/2377;

9650089825/9419236291

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise) Corp. Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector - 29, Grugram - 122001, (Haryana) Reg. Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016 Website: www.powergrid.in, CIN: L40101DL1989GO(038121

A Maharatna PSU



### PTC India Limited

CIN: L40105DL1999PLC099328

Regd. Office: 2<sup>rd</sup> Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144 E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 8<sup>th</sup> Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the members of PTC India Limited(Company) will be held on Thursday, 28th day of March, 2024 at 11.30 AM (IST) through video conference (VC), to transact the business as set out in the Notice of EGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular no. 14/2020 dated 8" April, 2020, General Circular no. 17/2020 dated 13" April, 2020, General Circular no. 22/2020 dated 15" June, 2020, General Circular no. 33/2020 dated 28" September, 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31" December, 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23" June, 2021 and the General Circular No. 20/2021 dated 8 December, 2021, General Circular No. 2/2022 dated 5° May 2022. General Circular No. 10/2022 dated 28° December 2022. and General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") permitting to conduct General meeting through Video Conferencing (VC) without the physical presence of the Members at a

in compliance with the said MCA Circulars, electronic copies of the Notice of EGM have already been sent on 4" March, 2024 to all the members, as on 1" March, 2024 (closing hours), whose email IDs are registered with the Company Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the EGM vide MCA Circulars is dispensed with. The Notice will also be available on the website of the Company www.ptcindia.com, website of the National Securities Depository Limited, agency for providing e-voting facility i.e. www.evoting.nsdl.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the securities of the Company are listed. Any member seeking electronic copy of this notice may write to us

Members are requested to register their email ID permanently by following the procedure as mentioned below:

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID with the Company Registrar are requested to register/update their email ID with MCS Share Transfer Agent Ltd. by sending duly signed request Form ISR-1/letter at admin@mcsregistrars.com or cs@ptcindia.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN Card.
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email ID with the relevan Depository Participants.

The notice of the EGM contains the detailed instructions regarding the manner in which the members can register their email addresses and cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM and join the EGM through video conference (VC), which is available on the website of the Company/ NSDL/ Stock Exchanges, as referred above The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 21" March, 2024 may

cast their vote electronically on the Special Business as set out in the Notice of EGM through electronic voting systems of NSDL. All the members are informed that:

- The Special Business as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on 25th March, 2024 at 9.00 am (IST);
- The remote e-voting shall end on 27° March, 2024 at 5.00 PM (IST);
- A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only; Person who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of EGM
- and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote; and

Date: 6th March, 2024

Place: New Delhi

- a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently
- the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again:
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM; and
- a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and voting at EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or at National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 or at telephone nos.:- +91 22 2499 7000, +91 22 4886 7000, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

By Order of the Board For PTC India Limited

Rajiv Maheshwari Company Secretary

FCS 4998

प्रपत्र सं. 5 ऋण वसूली न्यायाधिकरण 600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ-226007 (क्षेत्राधिकार – यू.पी. का हिस्सा) प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने और उपस्थिति हेतु सम्मन ओ.ए सं. 1145/2023

(बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली और दिवालियापन अविनियम, 1993 की धारा 19(3) के साथ पठित वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस बैंक ऑफ इंडिया

बनाम श्री दीपेन्द्र सिंह चौहान एवं अन्य

सेवा में, प्रतिवादी

प्रथम नीलामी की तिथि: 13.03.2024

हरियाणा-122001

संपर्क कर सकते हैं।

 मैसर्स रिम जिम बिल्डर्स कार्यालय 323, नई बरती, तुला राम, स्टेशन रोड, पीलीभीत, यू.पी .... एकमात्र प्रोपराईटरशिप भैसर्स मंगलम इंटरप्राइजेज कार्यालय, 323, नई बस्ती, तुला राम, स्टेशन रोड, पीलीभीत, उ .... एकमात्र प्रोपशईटरशिप

उपरोक्त उल्लिखित आवेदन में आपको दस्तावेजों और शपथ पत्रों के लाथ पेपर बुक फॉर्म में दो सेटों में उत्तर दाखिल करना आवश्यक है। इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या आपवं विधिवत प्राधिकत एजेंट या काननी व्यवसायी के माध्यम से समन के प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके वकील/विधिवत प्राधिकृत एजेंट को इसकी प्रति देने के बाद, और उसके बाद दिनांक 04.09.2024 को प्रातः 10:30 बजे न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होना है, ऐसा न करने पर आपकी अनुपरिधति में आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे वलाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रॉड, कोच्वि–682018, केरल, भारत, CIN:

L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com,

www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2022 की अवधि तक के

मुङ्गांव (**0267**): MDL-1704, 1708, MEG-299, MUL-6315, 6322, 6389, 6427, SRS-59, 132, 147, मुङ्गांव-सोहना चौक (**0920**): MEG-398, MUL-2475, 8275, गुक्गांव-नई रेलवे रोड (0945): MDL-1234, MEG-264, 304, MUL-3937, 4911, 5118, 5217, SRS-67, गुक्गांव सेक्टर-10 (1122): BLS-20, MDD-59, MDL-1739, 1746, MEG-400, 450, MUL-6049, 6157, 6172, 6186, 6193, SRS-45, गुरुगांव सेक्टर 31 (1136): MAL-1793, MDL-1587, 1615, MEG-588, 612, MUL-7328, 7463, 7641, 7686, 7857, 8007, 8075, 8101, 8107, 8174, 8266, MWS-5394, SRS-69, 301, गुरुगांव सेक्टर 14 (1341): MDL-1690, MEG-533, 572, 578, 594, 595, MUL-6583, 6909, 6982, 7014, SRS-234, गुडगांव-झारसा रोड सेक्टर-15 (1632): MDL-1093, 1105, MEG-88, 335, MOL-150, MUL-6088, 6093, 6094, 6189, SRS-49, 65, 79, गुड़गांव-डुंडाहेड़ा (1677): MDL-1150, MEG-140, 149, 171, MUL-4222, 4385, 4390, 4392, 4402, 4438, 4485, 4535, 4601, 4638, SRS-28, 73, मुङ्गांव सेक्टर **22 (1750)**: MDL-702, MEG-316, MUL-4775, SRS-68, 69, 165, मुङ्गांव सेक्टर **4-(** हरि) (**2042**): MDL-1278, 1387, MUL-5340, 5372, 5460, 5489, 5491, 5499, 5506, SRS-45, 89, 93, 102, गुडगांव-शीतला माता मंदिर (2784): MEG-70, MUL-2608, SRS-18, 19, मुख्यांव-बादशाहपुर (2996); MDL-1740, 1915, MUL-1630, 5288, 5394, 5469, RGL-2404, 3377, 3393, 3445, 3446, 3468, SRS-72, 169, 170, 279, मानेसर-(हरि) (3223): RGL-1632, 1649, सोहना (हरि) (3289): MEG-292, MUL-2369, RGL-2122, 2320,

SRS-28, 125, TMS-4, 맥리라(-(문학) (3377): BLS-78, 108, 110, MAL-829, MDL-422, 795, 879, 880, MEG-96, 108, MUL-5105, 5148,

दूसरी नीलामी की तारीख 14.03.2024, नीलामी स्थान: पहली मंजिल, एससीओ-32, हुडा मार्केट, सेक्टर-04, गुड़गांव,

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी

रेंथति में जहाँ इस सब के बावज़द कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियो

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी घुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com** या **7834886464, 7994452461** पर कॉल करके

DARSHAN SINGH

विक्रय की उद्घोषणा

यह कि माननीय पीठाचीन अधिकारी, ऋण वसूती अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूती प्रमाण पत्र संख्या 539/2022 जो कि मूल आयेदन संख्या 601/2021 में दिनांक 61.08.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि क्रमशः 35,85,202/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद ब्यव एवं खर्चों सिंहत वसूल किये जाने थोग्य है। तथा कह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 20,12,2022 तक खाज, बाद खाव व बच्चों ने सिंहत राशि 40,49,695,57 रुपये एवं पविध का खाज बकाजा को है। तथा बह कि अधोक्तराजावरूकों के द्वारा संलग्न अनुसुष्टी में पिठीय बंधकजुद्धा सम्बन्धि को प्रमाण पत्र संतुष्टि है। विक्रम किये जाने हेतु अधिकारिया तथा है है। एसद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थयन आयेश की अनुपारियति में सन्दर्भित सम्बन्धि का विक्रय मैससं CL India Pvt. Ltd. के द्वारा आनलाईन नीलामी

नथा है। एसद्वार वह सूचना क्या (भावता है) के काल स्थान की बन के अनुवस्थात म सन्दानन संभ्या की विकास (Lindia PVI. Etc. क द्वारा आनं साम के किया जायेगा। के सिक्त के किया जायेगा। के सिक्त के सम्भित्त किया गये हैं, ये प्रत्येक लीट के साम के अनुवस्थित में विनिर्देग्द है। संगति का विकास 'जहाँ है जे सी सिक्त में हैं "के आधार पर किया जायेगा। सम्मित का विकास अनुवस्थित में विनिर्देग्द है। संगति का विकास 'जहाँ है जे सी सिक्त में हैं "के आधार पर किया जायेगा। सम्मित का विकास अनुवस्थित में विदेश के अनुसार किया जायेगा। अपने सिक्त वह ना को के दिया जायेगा। अपने सिक्त के अनुसार किया जायेगा। अपने सिक्त वह ना को के दिया जायेगा। अपने किया जायेगा। अपने सिक्त वह ना के किया जायेगा। अपने किया जायेगा। अपने सिक्त वह ना के किया जायेगा। अपने सिक्त वह ना किया जायेगा। अपने किया

दिया जायेगा। विक्रव हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अक्रयक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जायेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूत्री में वर्गित करतें तथा इसके अंतर्गत निर्मित निवर्मों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त सर्तों के अध्ययीन होगा:
(1) सब्तंग्ग सूत्री में दिये गये विकरण अजीवरताशरकता को प्राप्त केय जानकारी के अनुसार अधिक है किन्तु अधीवरतार कर ते एवं स्थानि है, असरा अध्या मुक्त के तिये गये विकरण अजीवरताशर कर ते एवं प्रस्ति की बोली स्वार्ट के तिये के तिये गये विकरण अजीवरताश्च के तिया में तिया के तिया के तिया के तिया के तिया में तिया उत्पन्त होने पर यह तांट तुरन्त है पून: नीलाणी के तिए रख दिया जावेगा। (4) इच्छुक मंत्रीवाताओं को जरूर वर्षिक के वस्ताईट पर पंजीकृत कराना तथा प्रकार कित वर्षा के प्रस्त होने पर यह तांट तुरन्त ही पून: नीलाणी के तिए रख दिया जावेगा। (4) इच्छुक मंत्रीवाताओं को जरूर वर्षिक के त्रार्थ कराया जावेगा। जो बोली लगावे जावे के त्रार्थ अध्या वोलीवाता को आवित हुए व पास्त्र प्राप्त कराना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रवास हार पर का व्यवस्थ कराया जावेगा। जो बोली लगावे के तिर अभिवाद है। (5) बोलीवाता को आवित हुए वर्ष के 10 प्रतिकृत ताति वसूती अधिकारी, क्या वस्तु विकरण, जावुर के पास में डिमाण्ड हुएक के जीरिये जावा करवायी जासकारी अध्या एवं. श्री. एवं. ती कित ताता सिवर्म करवाया जा सकेगा। अभावत वाद के ताता के ति हिमाण्ड हुएक के जीरिये जावा करवायी जाता के विकरी अथा वार्षका करवाया जा सकेगा। अभावत हुएक करवाया जा सकेगा। अभावत हुएक करवाया जा सकेगा। अभावत हुएक के ताता के ति हुएक करवाया जा सकेगा प्रतिकृत करवाया जा के ता प्रतिकृत करवाया जा के ता वार्षका करवाया जावेग का का कित करवाय जावेग का कित करवाया जावेग का का कित करवाया जावेग का कित करवाया जावेग का कित करवाया जावेग का कित करवाया जावेग का कित करवाया के तिये जावेग करवाया के ति वह बोली लगाने के तिए का का विकर के कितर करवाया वाले के तिये के विकर करवाया के तिये जावेग महित करवाया के तिये जावेग करवाया के तिये जावेग वालेग के विकर के तिये करवाया के तिये करवाया के तिये के विकर के तिये करवाया के तिये करवाया के तिये करवाया विकर के तिये वालेग के विवरत वालेग के तिये जावे वालेग के तिये वालेग के तिये करवाया विकर के तिये वालेग के वालेग के तिये करवाया विकर के वाले वालेग के विवरत वालेग के तिये के वालेग के तिये वालेग के विवरता विकर के वालेग के विवरता वालेग के विवरता करवाय

द्वारा घोषणा के तुरना पश्चात् (विशेष परिस्थितियाँ में 24 पण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत शारी धरोहर राशि को समावीजित करते हुए जना करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जायेगी अथवा विक्रय की समूर्ण राशि केता हारा क्कूती अधिकारी ऋण क्लूती अधिकरण के पक्ष में जरिये टिमाण्ट द्वापट अथवा खाता संख्या 50200074019804 में नीलागी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें यह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वों दिन र्विवार वा अन्य

अवकाश हो तो उत्तक पण्यात प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उत्तत अवधि के मीतर बुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पति विकय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जायेगा। (७) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को वदि अधोहरताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जाये तो यिक्रय के खर्चे समायोजित करने के परचात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एयं उस स्थिति में क्रेना के उक्त सम्पति वा राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्दा हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/-रूपये

तरकार भर ला जाया है पर तरकार के इसने के वह से पायत है जो है के किया भा मान के ज्याप में आकर्षार जाया है किया ह एक्ट अवित्तत एवं उसके प्रथान सेष तासि पर 1 अविद्यत की वर में पोज्येक किया का भुगतान करना होगा। (10) प्रमाणपत्रधारी केंक के द्वारा इक्कुक बोलीदाता को सम्पर्धि के निरीक्षण की अनुमति दी जायेगी जिसके लिए इक्कुक बोलीदाता श्री हरी ओय गोयल से गोवाईल संस्था 560353716 पर सम्पर्क कर सकते हैं। (11) यदि इक्कुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते हैं तो ये गोठल अधिकारी/सेबाबदाता के माध्यम से गीलामी में भाग से सकते हैं।

(12) प्रस्तावित बोलीदाता मैसर्स C1 India Pvt. Ltd. पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, प्लॉट नं. 68, सेक्टर-44, गुडगांव, हरियाणा (122063) सम्पर्क-मोबाईल नम्बर भाविक पाण्येय assess2937 / 7291891124/25/26 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाग प्रता शकते हैं जो बेबशाईन <u>www.bankeauctions.com</u> पर उपलब्ध है। (13) अमानल राशि जमा कराये जाने एवं राजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 08.04.2024 को 3 वजे सांच तक है। (14) ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता मैसर्स C1 India Pvt. Ltd.

पेजीकृत कार्यातय तृतीय तल, प्लाट नं. 88, सेक्टर-44, युडगाय, हरियाणा (12200) सम्पर्क-मोबाईल नम्बर भाविक पाण्डेय 888882937/ 7291891124/25/36 के हारा दिनांक 15.04.3024 को प्रात: 11 बजे से सांच 2 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलागी की राशि सांच 2 बजे के उपरान्त 10 मिनट के परचात् भी नहीं बढ़ायी जाती हे तो नीलागी को समाप्त कर दिया जायेगा। (15) यरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन रोवा प्रदाता के हारा किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण :

सन्यत्ति का

आरक्षित

मुख्य

(3)

11 लाव

बामें जिल

आरक्षित

राशि

विकय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगा

NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

5192, 5196, 5207, 5229, 5244, 5297, 5298, 5319, 5335, 5338, 5362, 5382, 5391, 5484, 5514, SRS-42, 81, 98

में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कार्यालय वसूली अधिकारी–प्रथम

ऋण वसुली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के सामने,

लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टॉक रोड़, जयपुर (राजस्थान)

(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

वसूली प्रमाण पत्र संख्या : 539/2022 प्रकरण का उनवान : आगामी तिथि : 18.04.2024

STATE BANK OF INDIA बनाम



अनुमोदन भी प्राप्त नहीं है।

दिनांक: 05.03.2024

वॉलडेंट इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः खसरा नं. 714, ग्राम ढाकघर छतरपुर नई दिल्ली साऊथ दिल्ली-110074 CIN: U33100DL2017PTC322634 ईमेलः sales@waldent.com, येवसाइटः https://www.waldent.com

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण तथा संबंधित सभी पक्षों को सूचना दी जाती है कि वॉलडेंट इश्रोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय खसरा नं. 714, ग्राम आकघर छत्तरपुर. नई दिल्ली साकथ दिल्ली-110074 है, ने 09 जून, 2021 से यूनियर्सल ओस्सियोडेंसिफिकेशन यसें किट (विशेषकर, वॉलडेंट यूनियर्सल यांडेसिफिकेशन वर्स किट-के19/3) की बिकी बंद कर दी है एवं वीएस8, वीटी5 और वीटी8 चिन्हों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। आगे, एतद्द्वारा कंपनी द्वारा सूचित की जाती है कि अन्य बीलरों द्वारा ऐसे चत्पादों/ऊप उल्लेखित समतुल्य उत्पादों की बिक्री के लिए गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं, कॉपीराइट संबंधी कानुनों इत्यादि के किसी भी तरह के उल्लंघन के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी. ज surgeonmart.com, dentisthubindia.com तथा medisavehealth.in तक सीमित नर

क्योंकि ये प्रतिष्ठान कंपनी द्वारा मालिकनाप्राप्त अथवा नियंत्रित नहीं है तथा कंपनी क

वॉलडेंट इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोटिस द्वारा सूबना दी जाती है कि शेयर कोलियों ने. SRF0133207, सर्टिकिकेट नं.- 90197897 90089627 और 1136088 के 450 खेयरों वे ਭਿਕਟਿਜਟੀਰ ਜ. 15231390-15231439, 9650366 9650405, 296061854-296062213 जो मूर्ति सैनी वे नाम मेसर्स एसआरएक लिमिटेड के रिकार्ट्स में दर्ज ह नाम मेससी एसआरएफ लिमिटेड के रिकार्ड्स में दर्ज हैं कहीं और गुपर नष्ट हो गह है और जिल्लाफराउस ने इसके संकर्म में दुविकोट योगर सार्थिफकेट कारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है। यदि कोई सी व्यक्ति किसका उत्तर बेकरी पर दावा है, उर्ज केमनी के उर्वकट्टार और दोसफर एवंटी अपात केकिन देक्तीवार्जीक प्राइवेट सिंग्सेटेड, पता: केहीनियम टावर सी व्यट्ट नंबर 31-32-32 ग्रावीबोवर्जी काइनीवेयक बिरात, नानाक्रमगुद्ध, हैदराबाद - 500032 के पास अपना द्वाचा इस नोटिस की वारीख से 15 टिनों के भीकर दर्ज करना होगा। ऐसान करने पर कंपनी उन्हां सेपार्थ के संबंध में दुविकोट खेपर सर्विकेट कारी करने हेतु प्रक्रिया को स्वीकृत कर आगे बढ़ादेशी। दिनांक : 05.03.2024 शेयरधारक (ओं) का नाम स्थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि डा. रंजना पत्नी डॉ0 आनन्द कुमार सिंह एवं डॉ0 आनन्द कुमार सिंह, निवासी: चमन सराय आर्य सामज रोड निकट फजल आनन्द अस्पताल तहसील व जिला- सम्भल अपने फ्लैट नं0 एल-1802, प्लॉट नं0 जीएच-02, सेक्टर- टेक जोन IV ब्रेटर नोएडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0 के असली (Original) Builder Buyer Agreement (Amrapali Adarsh Awas Yoina) की फोटो कॉपी कराकर शंकर कॉलेज चौराहे से अपने आवास फजल आनन्द होस्पीटल जाते समय कही गिर गयी। अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग अवैध होगा। यदि किसी व्यक्ति को उक्त Builder Buyer Agreement प्राप्त होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के जरिये बैंक ऑफ बड़ीदा सम्भल शाखा उ0प्र0 पहुंचा दे।

> डॉ. रंजना पत्नी डा० आनन्द कुमार सिंह एवं डॉ0 आनन्द कुमार निवासीः चमन सराय आर्य समाज रोड, निकट फजल आनन्द अस्पताल तहसील एवं जिला- समधल

(首) IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

रिटेल रिकवरी, पृथ्वीराज रोड, जयपुर, डी-24, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी-स्कीम, जयपूर-302001 राज.

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना

जो 27.03.2024 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 01.00 बजे आयोजित की जायेगी

एतबुझल आग जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा जगानतदारों को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्षित अवल सम्पति / प्रतिभूति परिसम्पति प्रतिभूति तेनदार (आईक्षीआई कै लि.) के पास गिरवी / प्रभारित है। जैसा कि, विलीय आस्तियूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वाल 13 (2) के अंतर्गत प्राधिकत अधिकारी ने प्रत्येक ऋणधारक के समझ नीचे दिए गए किरण के अनुसार ऋणधारकों / जमानतदारों / कंधकातीं में एवं इसे आगे ऋणधारक के रूप जाना जाएं) से बकाय पश्चित विश्व प्रतिभूति किए मांग सूचना जाएं। किया। पुनः विलीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति कित्र प्रतिभ्व मानत का उत्तर अधिकारी के मित्र है। जैसे प्रतिभूतिकरण के स्वत्य अधिकारी के मित्र के स्वत्य के सित्र है। जैसे प्रतिभूतिकरण के स्वत्य के सित्र है। जिस्से हैं। जिस्से हैं। जिस्से हैं। जिस्से के लिया है। जनतिक, प्रतिभूति परिसम्पतियों के अनुसार ऋण्यायकों के आई के लिया है। जनता तथा जस पर केंक द्वारा वहन की गई सुल्तों, उसके बाद वसूनी यदि कोई हो, को घटाकर से बीली करने के लिये आर्थिक नित्र है। जीना होरा विक्री की जायेगी। आप जनता को व्यक्तिग्रत अधिकृत एजेन्ट के मध्यम से बीली करने के लिये आर्थीक जाता है।

		я	तिभूति आस्तिय	ग का । धक्रा	का अनुसूचा				
ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि एवं उसमें वर्णित बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	करूना की स्थित (भौतिक अथवा सांकेतिक)	करुना की तिथि	आरक्षित मूल्य     अरोहर सिंश (ईप्सडी     भुगतान की सिंश)     अली वृद्धि राशि	ईएपडी जपा करने की अंतिम तिथि	खाता का विवरण जिसमें आवटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से ईएमडी जमा की जावेगी	संपत्ति के निरीक्षण की निथि एवं समय	नोडल अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
मैसर्स राजस्थान माइन्स एण्ड मिनेरल्स	18.08.2021 एवं रू. 65,48,709/- दिनांक 31.08.2020 से	प्लॉट नं. सी-34 एवं सी-35 युनिट-11, खाता नं.329, खसरा नं. 4331/3400, औद्योगिक क्षेत्र, गांव-रानी सागर जिला-अजमेर	साकातक	02.09.2022	₩. 5.50,000	26.03.2024 सायं 04 बजे तक	खाला नव्यर- 127637000010771 नाम : IDBI Bank Ltd. IFSC Code - IBKL0001276	संभावित क्रेता निरीक्षण हेत् अधिकारी सं संपर्क	श्री नवीन कुमार 09953067523 डॉ. जे.पी. पारिष (डीजीएम जवपुर)

र्द--मीलामी की संक्षिपा नियम व सर्वे:-- यह विक्री प्रतिभृति हित (प्रकर्तन) नियमवादती, 2002 में निर्दिष्ट नियमों एवं कर्तों के अधीन होगी। 1. प्रतिभृति सम्पत्ति की यह विक्री प्रतिभृति लेनदार अर्थात् आईबीबीआई बैंक लि. के लिये तथा जनके बोर से 'जैस है जह है, जो भी जैस है, जो भी जैस है जिस है के अन्तर काईबीबीआई बैंक के अधीन होगी। वोशी वरसावेज हमारे कार्यालव से सभी कर्य विवस्ते के प्राप्त की जा सकती है अर्थात आईबीबीआई की के असीन होगी। वोशी वरसावेज हमारे कार्यालव से सभी कर्य विवस्ते के प्राप्त की जा सकती है अर्थात आईबीबीआई की के अधीन होगी। वोशी वरसावेज हमारे कार्यालव से सभी कर्य विवस्ते के प्राप्त की जा सकती है। 3. यह बिकी धूं--गीलामी सेवा प्रवास मैसर्स सी 1 चूंडिया प्रा. लि. सम्पर्क भी माविक पाण्ड्या (ई--मेल Gujarat@c1india.com तथा support@bankeauctions.com) www.wom.com तथा शाब https://www.bankeauctions.com श्रे वाजनांश्व के वाजनांश्य के वाजनांश्व के व सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) व 8(6) के अंतर्गत 15/30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतदृद्वारा ऋणी / प्रोपराईटर / जमानतदार को सूचित किया जाता हैं कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अञ्चतन ब्याज तथा सहायक खर्चें के साथ उपरोक्त राशि का मुगतान करें जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जावेगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। प्राधिकत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड दिनांकः 06.03.2024 स्थानः अजमेर

नोटिस न्यायालय सुचना पटट

03.04.2024

नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा) : 05.03.2024

रजिस्टेशन की अंतिम तिथि : 08.04.2024

(बँक द्वारा)

निरीक्षण की तिथि

अमानत राशि एवं

26.02.2024

### पीटीसी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L40105DL1999PLC099328

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनयीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 फोन : 011 - 41659500, 41595100, 46484200, फैक्स : 011 - 41659144

PTC India

ई-मेल : info@ptcindia.com, वेबसाइट : www.ptcindia.com असाघारण आम बैठक की सूचना और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

ख़दद्वारा सुबना दी जाती है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 8वीं असाधारण आम बैठक (इंजीएम) नुरूवार, 28 मार्च, 2024 को पूर्वा. 11.30 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी') के माध्यम से, ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। यह ईजीएम कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और तदधीन विरोधित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सुबीयन विनियमावली) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14 / 2020 विनांकित 8 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कलर नंबर 22/2020 दिनांकित 15 जन, 2020, जनरल सर्कलर नंबर 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, जनरल सर्व्हलर नंबर 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर. 2020. 10/2021 दिनांकित 23 जन. 2021 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 20 / 2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, जनरल सर्कुलर नंबर 2 / 2022 दिनांकित 5 मई, 2022 जनरल सर्कुलर नंबर 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संबी) द्वारा जारी संबंधित सर्कुलर्स के लागू प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('बीसी') के माध्यम से संचालन हेतु आयोजित की जाएगी।

उक्त एमसीए सर्व्यूनर्स के अनुपालन में, ईजीएम की सुधना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 4 मार्च, 2024 को उन सभी सदस्यों को भेजी जा चकी हैं, जिनकी ई—मेल आईडी'ज कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅटस के पास 1 मार्च, 2024 को (कार्य समाप्ति के समय पर) पंजीबद्ध हैं। कृपया नोट करें कि सदस्यों को ईजीएम की सुचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता, एमसीए सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है। उक्त सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.ptcindia.com पर. नैशनल सिक्योरिटीज विपॉजिटरी लिमिटेव, ई-बोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एजेन्सी, की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर तथा स्टॉक एक्सकेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट्स www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर भी उपलब्ध होंगी, जहां कम्पनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं। इस नोटिस की

इलेक्ट्रॉनिक प्रति चाहने वाला कोई भी सदस्य हमें cs@ptcindia.com पर लिख सकता है। सदस्यों से निम्नवर्णित प्रक्रिया अपनाकर अपनी ई-मेल आईडी स्थायी रूप से पंजीकृत करवाने का अनुरोध है :

 क) भीतिक रूप में शेवरों के धारक जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईडी कम्पनी रिजस्ट्रार के पास पंजीकृत/अद्यतित नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र आईएसआर-1 / पत्र admin@mcsregistrars.com या cs@ptcindia.com पर फोलियो नंबर के विवरण तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति भेजकर अपनी ई-मेल आईडी एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के पास पंजीकृत / अद्यतित करवा लें ।

 ख) अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत/अद्यतित करवाने क अनरोध किया जाता है।

ईजीएम की सुचना में उस विधि के संबंध में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं, जिसमें कि सदस्य अपना ई—मेल पता पंजीबद्ध करवा सकते हैं तथा अपना वोट रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अथवा ईजीएम के समय ई-बोटिंग द्वारा डाल सकते हैं तथा वीसी के माध्यम से ईजीएम से जुड़ सकते हैं, जीकि कम्पनी / एनएसडीएल / स्टॉक एक्सचेंजेज. उपरिसंदर्भित अनसार. की वेबसाइटस पर उपलब्ध है ।

सदस्यगण, जो कट—ऑफ तिथि अर्थात २१ मार्च, २०२४ को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी विशेष व्यवसायों पर अपना वोट एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टन्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित

ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा ;

रिमोट ई-वोटिंग 25 मार्च, 2024 को पूर्वा. 09.00 बजे (आईएसटी) आरंग होगी ;

रिमोट ई-वोटिंग 27 मार्च, 2024 को अप, 05,00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी,

कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे :

कोई व्यक्ति जो ईजीएम की सचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयरों का अर्जन करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और शेयरों का घारक है तथा वोट डालने हेत यादा है वह इंजीएम की सचना में दी गई लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई—बोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकत है, तो विद्यमान युजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के बिए किया जा सकता है।

सदस्यगण नोट करें कि:

क) एनएसढीएल द्वारा रिमोट ई-मोटिंग माढयूल, उपरोक्त तिथि और समय के बाद, वोटिंग के लिए निकिय कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी :

ख) जो सदस्य ईजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा बोट ढाल चुके हैं, वे ईजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको पुनः बोट ढालने क

गं) ईजीएम में इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ; तथा

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

किसी पूछताछ की स्थिति में, जिसमें रिमोट ई-बोटिंग तथा ईजीएम में बोटिंग के साथ संबंधित मुददे और चिंताएं शामिल हैं, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आरक्ड क्वेश्चन्त (एफएक्यू'ज) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा सुश्री पल्लवी म्हान्ने को evoting@nsdl.co.in पर अथवा नैशनल सिक्वोरिटीज हिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 को अनुरोध भेजें अथवा टेलीफोन नंबर +91 22 2499 7000, +91 22 4886 7000 पर कॉल करें जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा बीटिंग के साथ सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

बोर्ज के आदेश दारा वास्ते पीटीसी इंडिया लिमिटेड

तिथि : 06 मार्च, 2024 स्थान : नई दिल्ली

(राजीव माहेश्वरी

कम्पनी सचिव

एफसीएस 4998

# (2) Agriculture Land of Khata No. 26/21, Sq. No. 62, K.No. 16, 24, 25 (0.759 Hect.) Sq. No. 66 K.No. 5, 6, 15, (0.759 Hect.) OA No. 601 of 2021 StQ. 2 Sq. No. 67 K.No. 1 to 25 (0.325 hect.) Sq. No. 68, K.No. 1, 2, 9 to 12, 19 to 23 (2.783 hect.) Sq. No. 77, K.No. 1 to 3, K.No. 1, 2, 9 to 12, 19 to 23 (2.783 hect.) Sq. No. 78 K.No. 2 to 10, 13 to 17, 25 (2.783 hect.) Sq. No. 78 K.No. 2 to 10, 13 to 17, 25 (2.783 hect.) Sq. No. 80 K.No. 1 to 3 (0.481 hect.) total 18.241 hect. out of which defendant share is 0.607 hect. AND Khata No. 54/48, Sq. No. 55 K.No. 4 to 7, 14 to 17, 25 (2.096 hect.) Sq. No. 69 K.No. 13 to 15, 17, 18 (1.265 hect.) total 3.361 hect. AND Khata No. 34/32, Sq. No. 56 K.No. 3, 8 to 13, 18 to 23 (3.289 hect.) Sq. No. 61, K.No. 18 to 25 (2.024 hect.) Sq. No. 68 K.No. 18, 24, 25 (0.759 hect.) Sq. No. 76 K.No. 1 to 3, 8 to 10 (1.518 hect.) Sq. No. 77 K.No. 4 to 7 (1.012 hect.) total 8.02 hect. out of which defendant share is 1.228 hect. situated at Chak 36 MMK, Patwar Mandal Kliawali, Tehsil Sadulsahar, District Shriganganagar (Rajasthan) AND Khata No. 11/17 Sq. No. 8, K.No. 11, 12, 17 to 25 (2.200 hect.) Sq. No. 9 K.No. 15 to 17, 24, 25 (1.265 hect.) total 3.465 hect. out of which defendant share is 0.058 hect. situated at Chak 35 MMK, Patwar Mandal Kliawali, Tehsil Sadulsahar, District Shriganganagar (Rajasthan) AND Khata No. 23/23, Sq. No. 7, K.No. 4 to 7, 15 (1.265 hect.) Sq. No. 3 K.No. 1 to 18 (4.529 hect.) Sq. No. 4 K.No. 1, 9 to 12, 19 to 22 (2.049 hect.) Sq. No. 8 K.No. 2 (0.253 hect. total 8.096 hect. out of which defendant share is 0.134 hect. Situated at Chak 34 MMK, Patwar Mandal Kliawali, Tehsil Sadulsahar, District Shriganganagar (Rajasthan) AND Khata No. 23/23, Sq. No. 7, K.No. 4 to 7, 15 (1.265 hect.) Sq. No. 3 K.No. 1 to 18 (4.529 hect.) Sq. No. 4 K.No. 1, 9 to 12, 19 MMK, Patwar Mandal Kliawali, Tehsil Sadulsahar, District Shriganganagar (Rajasthan) AMMK, Patwar Mandal Kliawali, Tehsil Sadulsahar, District Shriganganagar (Rajasthan) out of which defendant share is 0.134 hect. situated at Chak 34 MMK, Patwar Mandal Kilawali, Tehsil Sadulsahar, District मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 23.02.2024 को जारी।

यसानि के साविक एवं असा सम्माविक का सम

सहित बेबी जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकर्मी जो किसी अन्य व्यक्ति

से राह-मालिक है।

### homefirst Home First Finance Company India Limited

जो कि सम्पति के

संबंध में आ**ये आया** है

एवं अन्य कोई झात विशिष्टियों जो कि

इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव

रखवा है।

ज्ञात नही

CIN: L65990MH2010PLC240703,

वसुली अधिकारी-।, ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर

उसके किसी

माग पर

जिसका

गया है।

(5)

ज्ञात नहीं

प्रकार के भार

का विवरण जिसके लिए

राम्पति जरदायी है।

(6)

ज्ञात नही

Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

प्राइवेट ट्रीटी के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूत्तिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिमृत आस्तियों की बिक्री — (नियम 8(s) के तहत सूचना) अपोहरस्तावरी ने, **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (होम फर्स्ट)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, आपके द्वारा हमको देय बकाया राशियों के संबंध में उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के निबन्धनों में, अनुसूची सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। कृषया हमारी निम्नवर्णित दिनांक की सूचना देखें, जिसमें हमने सूचित किया था कि हम वर्णितानुसार सुरक्षित मूल्य नियत कर उल्लिखित समाचार पत्र में नीलामी सूचना प्रकाशित कर चुके हैं। नीलामी उसमें वर्णित तिथि को की जानी निर्मारित थी। नीलामी किसी बोलीटाता के नहीं होने के कारण सफल नहीं हो सकी।

सर्वसामारण को सुचित किया जाता है कि अनुसुची में वर्णित सम्पत्ति(या), कम्पनी की बकाया राशि की वसुली के लिए कम्पनी को स्वीकार्य शर्तों के अनुसार, प्राइवेट ट्रीटी के माध्यम से, "जैसी है जारा है आयार" तथा "जो है जैसी है आयार" पर बिक्र के लिए उपलब्ध हैं। अतएव, उक्त अधिनियम और तदयीन विरचित नियमों के प्रावचानों के अनुसार, हम यह सूचना जारी कर रहे हैं ताकि आप कम्पनी की बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 15 दिन के मीतर वापस कर सकें और अनुसूची में वर्णि

आस्तियां वापस ले सकें, जिसमें असफल चटने पर आस्तियां बकाया राशि की वसूली हेतु बेच दी जाएंगी। यह सूचना उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य लागू कानून के तहत कम्पनी को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार को प्रतिकूल प्रमावित

5000	r alical, alicitat	र विवरन / स्वर्टाकरन के विदे तथा अवना आकृष अस्तुत करने के विदे आवर्षित आवकार्य से सन्बंध कर	C change of Laws consider	L Adc \ Lidal	क आवनाना क अनुसार	401 0015-011		
	खाता / गारंटचें का नाम	सम्परित का विवरण/सम्परित का स्वामी	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (आईएनआर में)	बिजी सूचना की तिथि	समाचार पत्र	ईं-नीलामी की तिथि	सुरविव मृत्य (आईएनआर में)	प्राप्तिकृत अधिकारी का नम्बर
1.	ओम पाल, ज्योति जय राम	पलैट-एसएफ-08, द्वितीय तल, खसरा नंबर 1303, प्लॉट नंबर 29, पी एन विहार रियर आरएक्एस साइड, फ्रंट साइड से तीसरा पलैट, पी एन विहार, एफ ब्लॉक, एसएलएफ विहार के सामने, हदबस्त ग्राम लोनी, गाजियाबाद-201102	8,62,306	16-02-2021	बिजनेस स्टैडर्ड (अंग्रेजी + हिन्दी)	04-03-2024	6,84,000	5800553102

रारफारी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नीटिस तदहारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि मांग सूचना में वर्षित अनुसार बकाया राशि अछतन ब्याज और अनुशंगी खर्चों के साथ, इस सूचना की तिथि से 15 दिन के मीतर चूकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की

नीलामी / बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। तिथि : 06-03-2024 स्थान : एनसीआर

प्रापिकृत अधिकारी द्वारा हस्तावारित, होम फर्स्ट फाइनैस कम्पनी इंडिया लिमिटेर

ए) इस प्रमाण पत्र / निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चै।

व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

कार्यालय के अधिकारी-॥

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

डिमांड नोटिस

(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुमाग 25 से 29 के साथ पढते

हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

युको बैंक बनाम स्व0 ऋषिपाल सिंह एवं अन्य

**कानूनी उत्तराधिकारी 1.** श्रीमती रोशनी पतनी श्री ऋषिपाल सिंह, निवासीः शिवपुरी, रामपुर,

**कानूनी उत्तरपथिकारी 2.** निखिल चीहान पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह, निवासीः शिवपुरी, रामपुर,

यह सूचित करना है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में

जारी किए गए रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार, औए/346/2023 में 😿 37,66,831.

49 (रू० सैतीस लाख छयासठ हजार आठ सौ इक्तीस एवं उनचास पैसे मात्र) के

साथ-साथ पेंडेंट लाइट और दिनांक 13.07.2023 से भविष्य के ब्याज के साथ

@10.60% प्रतिवर्ष साधारण व्याज से लगने वाला व्याज एवं अन्य खर्चे चुकता होने

तक बकाया है और लागत 쩏 41,006.00 (इक्तालीस हजार पांच मात्र) आपके

2. आपको सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भगतान करे

लिए निर्देश देता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसुली और दिवालियापन

3. आपको यह आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या उससे

4, आपको आगे कि कार्यवाही के लिए **दिनांक 21.05.2024** को सबह 10.30 बजे

5. उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरादायी

पहले आपकी सम्पत्ति के विवरण को एक हलफनामें पर घोषित किया जाए।

मनिहारान, वेहात, सहारनपुर, उत्तर प्रवेश- 247451

मनिहारान, देहात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247451 **(सीडी.2)** विशाल चौहान पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह, निवासीः शिवपुरी, रामपुर, मनिहारान, देहात,

(सीडी.1) स्व0 ऋषिपाल सिंह पुत्र श्री करम सिंह, निवासी: शिवपुरी, रामपुर, मनिहारान,

देहात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247451

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247451

(संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से) विरूद्ध हो गए हैं।

अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसुली की जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।

आर.सी / 86 / 2024

 डस सचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और अधिकरण की मृहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 21.02.2024 से जारी।

ऋण वसुली अधिकरण, देहरादून

दिनांकः 21.02.2024

#### कब्बा सुचना (अयल संपत्ति हेत)

जब कि

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ("आईएचएफएल") प्रधिकत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्क्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सनेंट) रूल्स. 2002 के साथ पडते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार भविंदर सिंह और रमनप्रीत कौर को 29.11.2021 की सूचना में कर्पन के अनुसार कर्ज खाता नं. B027OXXIII (आईएचएफएन का पूर्व कर्ज खाता रं. HDHI NOD00491775) की राशि क. 15.86.791.60 (क्रपचे पटड लाख कियामी डवार सात सौ इक्यानवे और साठ पैसे मात्र) और 25.11.2021 के अनुसार उस पर व्याज उक्त सूचना की प्राणी की वारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियायना सुधना जारी की थी । इसके अलावा आईएचएफएल ने इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रब्शन कंपनी लिमिटेड के पश में इंडियाबुल्स एआरसी -XXIII ट्रस्ट के ट्रस्ट्री के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और न्याज 31.12.2021 को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सीपा है, इसके अलावा इंडियाबल्स एसेट रिकन्द्रव्हान कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी -XXIII ट्रस्ट के ट्रस्टी ने दिनांक 29.06.2022 के अमारमंद्रि करार के माध्यम में प्रमेट केश्वर एंड रिकन्स्टक्शन एंटरफाईज निवित्रेड ("एमीआरई") के पश में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ज्याज और कर्ज खाता जिसे ए**सीआरई** की पुस्तकों में कर्ज खाता नं. B027OXXIII के रूप में पन: क्रमांकित किया गया है, सींपा है।

धनराशि चकता करने में कर्जवारों के असफल रहने पर एतददारा कर्जवार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोड़स्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वोरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 04.03.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.15,86,791.60 (रूपये पन्द्रह लाख छियासी हजार सात सी इक्क्यानवे और साठ पैसे बाब) 25.112021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ असेट्स

के अर एन्ड रिकन्स्टक्शन एन्टरप्राइजेस लि. के आधीन होग उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण जत/टेरेस के अधिकार के बिना पहली मैंजिल का निर्माण क्रीबेल्ड संपत्ति से बियरिंग ने डब्ल्यजेड-

283/125, क्षेत्र माप 39 स्क्बे. यार्डस्, (26 फीट. 13.1/2 फीट), खसरा नंबर 19/16 और 19/14 का भाग, सामान्य प्रवेश/दार, सीदी, पैसेज और अन्य सभी सामान्य सविधाओं का उपयोग करने के सामान्य ऑधकारों के साथ, गाँव खवाला क्षेत्र में स्थित, अब विष्णु गार्डन एक्सटेंशन से पहचानी जानेवाली कॉलोनी, नई दिल्ली - 110018, उबत संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक स्वतंत्र अधिकार के साथ और जिसे निम्नानुसार परिबध्य किया नया है:

पूर्व : सड़क 15 फीट पश्चिम : प्लॉट का हिस्सा उत्तर : अन्य की संपत्ति.

दक्षिण : अन्य की संपत्ति

प्राधिकृत अधिकारी असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 04.03.2024